



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 1982/कार्तिक 26, 1904  
No. 527] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 1982/KARTIKA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवश

नई दिल्ली 17 नवम्बर, 1982

का० आ० 810(अ)/18कक/आई डी आर ए/82—भारत सरकार, के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 767 (अ) तारीख 23 अक्टूबर, 1981 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कला गया है) द्वारा मेसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड, बेलगछिया, पश्चिम बंगाल नामक औद्योगिक उपक्रम का संपूर्ण प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन तीस दिन की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सूर्य किरण भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 821 (अ)/18कक/आईडीआरए/81 तारीख 21 नवम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 नवम्बर, 1981 से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 40(5)(अ)/18कक/आईडीआरए/82 तारीख 31 मई 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 मई, 1982 से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम छह मास की और अवधि के लिए उक्त नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध के अधीन बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि उक्त आदेश 21 मई, 1982 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं० 2(5)/81-सूएस]

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 810(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 767 (E), dated the 23rd October, 1981 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Mohini Mills Limited, Belgharia, West Bengal, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of thirty days and the National Textile Corporation Limited, Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, was

authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 821(E)/18AA/IDRA/81, dated the 21st November, 1981, the period of the said Order was extended for a further period of six months commencing from the 22nd November, 1981 ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 340(5) (E)/18AA/IDRA/82, dated the 21st May, 1982, the period of the Order, was extended for a further period of six months commencing from 22nd May, 1982 ;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the said National Textile Corporation Limited for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of 21st May, 1983.

[F. No. 3(5)/81-CUS]

का० आ० 811(अ)/18 बख/आईडीआरए/82—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का०आ० 783 (अ)/18बख/आईडीआरए/81 तारीख 2 नवम्बर, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संबिदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उन्से भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनका मेसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड, बेलघरिया नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन 21 नवम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, निर्वाचित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अग्रिम प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए, निर्वाचित रहेंगे ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं०का०आ० 822(अ)/18बख/आईडीआरए/81 ता० 21-11-81 और का०आ० 341 (अ)/18बख/आईडीआरए/82 ता० 21 मई, 1982

द्वारा उक्त आदेश की अवधि 21 नवम्बर 1982 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 6 मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बख का उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 21 मई 1983 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाता है।

[का०सं० 3(5)/81-सीयूस]

ए०पी० सरवान, संयुक्त सचिव

S.O. 811(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 783(E)/18FB/IDRA/81, dated the 2nd November, 1981 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of contracts, assurances, of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Mohini Mills Limited, Belghria, West Bengal, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period upto and inclusive of the 21st November, 1981 and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 822(E)/18FB/IDRA/81, dated the 21st November, 1981 and S. O. No. 341(E)/18FB/IDRA/82, dated the 21st May, 1982, the said Order was extended for the period upto and inclusive of the 21st November, 1982 ;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of 21st May, 1983.

[F. No. 3(5)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.